



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1132) पटना, वृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

19 अगस्त 2015

सं0 22 नि0 सि0 (पट0)—03—04/2014/1851—श्री विजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना के विरुद्ध प्राप्त निगरानी विभाग के पत्रांक 1492 दिनांक 19.03.2010 जिसके लिये श्री कुमार को विधान सभा के दक्षिण में निर्माणाधीन नाला में तीन नं0 ईट का उपयोग करने के दोषी पाये जाने के कारण भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3347 दिनांक 30.04.10 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त पाया गया कि स्पष्टीकरण में पूछे गये बिन्दुओं का समावेश उत्तर में नहीं रहने के कारण भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 8929 (भ0) दिनांक 26.11.10 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर (भवन निर्माण विभाग) पर की गयी एवं पाया गया कि इस निर्माण में एकरारनामा के अनुरूप ईट का व्यवहार नहीं होने के कारण उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार को दोषी पाया गया। फलस्वरूप उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0— 11888 (भ0) दिनांक 27.08.13 सह ज्ञापांक— 11889 (भ0) दिनांक 27.08.13 द्वारा श्री कुमार को निम्न दंड संसूचित किया गया—

- (1) दो वार्षिक वेतनवृद्धि का असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
- (2) उक्त निर्माण में सरकार को हुई वित्तीय क्षति का आकलन कर उक्त राशि की वसूली संबंधी आदेश बाद में निर्गत किया जायेगा।

उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा दिनांक 22.10.13 को भवन निर्माण विभाग में एक अभ्यावेदन दिया गया जिसकी समीक्षोपरान्त भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 1007 (भ0) दिनांक 29.01.14 द्वारा आरोप, विभागीय जाँच प्रतिवेदन, संसूचित दंडादेश आदि की छायाप्रति जल संसाधन विभाग को भेजते हुए अपने स्तर से समीक्षा कर संसूचित दंड को सम्पुष्ट करने अथवा यथापेक्षित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। भवन निर्माण विभाग से प्राप्त उक्त अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त सभी अभिलेखों को संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 492 दिनांक 29.04.14 द्वारा अधीक्षण अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा अंचल, अनिसाबाद, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि अधीक्षण अभियंता ने अपने मंतव्य में IS Code 1077-1992 एवं CPWD के ईट की विशिष्टि 91—92 के कंडिका 6.1.3.4 में उल्लेखित अनुज्ञेय सीमा का उद्धरण देते हुए आलोच्य नाला निर्माण में व्यवहृत ईट अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत माना है। समीक्षोपरान्त श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विचार अभ्यावेदन पर भवन निर्माण विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। भवन निर्माण विभाग से प्राप्त

मंतव्य एवं पूर्व में उपलब्ध कराये गये सभी अभिलेखों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि भवन निर्माण विभाग में अपने मंतव्य में अंकित किया है कि श्री कुमार के विरुद्ध विधान सभा के दक्षिण में निर्माणाधीन नाला में प्राक्कलन के विशिष्टियों के विपरीत निम्न कोटि का तीन नम्बर का ईट प्रयोग करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि तीन नम्बर का ईट का प्रयोग का आरोप तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच प्रतिवेदन में नेत्रानुमान पर आधारित है। यदि ईट की गुणवत्ता सही नहीं थी तो इसकी जाँच प्रयोगशाला में कराया जाना चाहिये था ताकि प्राप्त जाँचफल के आलोक में आरोप को सिद्ध किया जा सकता, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। साथ ही समीक्षा में यह भी पाया गया कि कार्य की प्राक्कलित राशि मात्र दो लाख रुपये की थी और इतने छोटे कार्य के कारण गुणवत्ता पर जितना अपेक्षित ध्यान आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया। इसलिये इसमें वित्तीय क्षति से अधिक लापरवाही का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त भवन निर्माण विभाग के अधिसूचना सं०-11888 (भ०) दिनांक 27.08.13 सह ज्ञापांक 11889 (भ०) दिनांक 27.08.13 द्वारा संसूचित दण्ड “दो वेतनवृद्धि का असंचयात्मक प्रभाव से रोक” के बदले निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया:-

(1) निन्दन वर्ष 2006-07

उक्त निर्णय के आलोक में श्री विजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, अनिसाबाद, पटना को भवन निर्माण विभाग के अधिसूचना सं०-11888 (भ०) दिनांक 27.08.13 सह ज्ञापांक 11889 (भ०) दिनांक 27.08.13 द्वारा संसूचित दण्ड “दो वेतनवृद्धि का असंचयात्मक प्रभाव से रोक” के बदले निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है:-

(1) निन्दन वर्ष 2006-07

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1132-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>